

#### JTEKT INDIA LIMITED

(Formerly known as Sona Koyo Steering Systems Limited)

Head Office: M3M Cosmopolitan, 1st Floor, Sector-66, Ramgarh Road, (Adjacent to Golf Course Extension Road), Gurugram - 122 002, Haryana, India.

Tel: +91 124 478 3100, Fax: +91 124 478 3199.



28th August, 2020

The BSE Limited **Department of Corporate Services** Floor 1, New Trading Ring Rotunda Building, P.J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400 001. Scrip Code - 520057

**Listing Compliance** National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai 400 051. Symbol - JTEKTINDIA; Series - EQ

Sub: Copy of notice published in the newspapers.

Dear Sir,

Please find attached herewith the newspaper notice published in the 'Business Standard (English and Hindi)' regarding information on 36th Annual General Meeting and information on e-voting.

We request you to take the same on record.


Thanking you,

Yours faithfully, For JTEKT INDIA LIMITED

**COMPANY SECRETARY** 

Regd. Office: UGF-6, Indra Prakash 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001, India.

Tel: +91 11 2331 1924 / 2332 7205, Telefax: +91 11 2332 7205 CIN: L29113DL1984PLC018415, Website: www.jtekt.co.in





# **Brookfield in talks to buy CoWrks**

#### The valuation and terms are still being worked out

RAGHAVENDRA KAMATH

Mumbai, 26 August

anada's Brookfield Asset Management Inc is in talks with Bengaluru-based office space developer RMZ Corp to buy out the latter's co-working solutions provider CoWrks, said sources in the know.

Brookfield will reportedly acquire some assets of RMZ in Bengaluru, Chennai, Mumbai and other cities, added sources. "The valuation and terms of the deal are still being worked out," they said. CoWrks, founded by Menda family scion Sidharth Menda, has around 16 co-working centres in the country and operates in Bengaluru. Mumbai, Hyderabad, Delhi National Capital Region, among others.

"Brookfield is keen as most co-working clients move into RMZ spaces. Since Brookfield is evaluating RMZ asset



**KEY FACTS** 

- CoWrks is part of Brookfield's plans to take over some of RMZ's assets
- CoWrks has about 16 co-working centres in the country
- Brookfield is also looking at co-living spaces
- Brookfield owns 22 mn sq. ft of commercial properties in the country
- RMZ owns 21 mn sq. ft of commercial assets; 35 mn sq. ft is under construction

acquisition, there is an integration factor," said sources, adding that the buyer of RMZ properties can derive maximum synergies between the properties and CoWrks. A Brookfield spokesperson declined to comment. RMZ, too, did not offer a response till the time of going to press. "For Brookfield, CoWrks fits into the strategy of shared spaces. It has evinced an interest in co-living spaces,"

said the source quoted earlier. It was in talks with Mumbai International Airport to lease 15 acres

of land in Mumbai. The fund manager also has plans to scale up the venture.

In June this year, Brookfield bought two floors from Jet Airways in Mumbai's Bandra Kurla Complex for ₹490 crore.

Brookfield owns 22 million square (sq.) feet (ft) of commercial properties in the country. These include corporate parks it bought from Unitech Corporate Parks in Gurugram and Kolkata, commercial property in Powai area of Mumbai which it bought from the Hiranandani family. It has also bought

hotels from The Leela Hotels last year. Brookfield could bring the acquired assets from RMZ's portfolio into its proposed real estate investment trust (REIT), said sources. Brookfield plans to file papers for its REIT in some months and plans to list it by the end of

the year, informed sources.

RMZ owns 21 million sq. ft of commercial properties in the country. It has 35 million sq. ft of under-construction properties. RMZ is selling its assets to become a zero-debt company. "RMZ wants to be debt-free and generate liquidity after a prolonged lockdown," said sources, adding, "Since the company is family owned, it does not want to float an REIT to raise funds."

WeWork India, CoWrks' rival in the country, is owned by Bengaluru-based Embassy Group's Virwani family.

In 2017, WeWork Global struck a partnership with Embassy Group to enter the Indian market, WeWork India has 34 centres comprising 60,000 desks across six major cities.

Though the co-working space is hit by the Covid-19 pandemic, experts say the segment will grow eventually.

#### **Accenture** plans to lay off 5% of workforce

Thousands of roles at

firm," Accenture said.

Accenture could be impacted as the company is looking to reduce at least 5 per cent of its global workforce.

Accenture has a global

workforce of around 513 000 people and out of them about 200,000 are in India. The workforce reduction might have an impact on India operations In an emailed statement to PTI on Wednesday. Accenture said it was not planning "extraordinary global workforce actions" at this time. "Every year, as part of our performance process, we have conversations with our people about how they are performing, areas for improvement, their potential to progress, and whether they are a long-term fit for the

#### FIRST FLOOR OF NICCO HOUSE [VACANT POSSESSION] (Approx 17,500 Sq. ft.) [Reserve Price: Rs. 9.75crores] For Details and Conditions: visit www.vinodkothari.com/nico-liquidation OR E-mail us: niccoliquidation@gmail.com All EOIsrbids subject to Invitations dated 26th August, 2020 Last date of receipt of EOI and EMD-3rd September, 2020. Last date of receipt of EOI and EMD-3rd September, 2020. sions are also invited for 25% shares in Nicco Parks and Resorts Limited at a reserve price of Rs. 35.06 of Last date of submission of EOI extended to 4th September, 2020.

ion Sale INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR

बेंक ऑफ़ बड़ीदा

www.bankofbaroda.in

vInod xumar Notrari, Liquidation NICCO Corporation Limited – in Liquidation NICCO House, 2, Hare Street, Kloikata-700001/ R- 1006-1009, Krishna Building, 224 AJC Bose Road, Kolkata 700017 e-mail: nicing/inodkothari.com Registration No: IBBII/P-N0019/P-N0019/2016-17/10033

Bank of Baroda invites RFP for Selection of Vendor for end-to-end implementation and management of NETC (National Electronic Toll Collection) acquirer system on Opex/ Revenue Sharing Model

Details are available under Tenders section on Bank's website: www.bankofbaroda.in

'Addendum", if any, shall be issued on Bank's website under tenders section i.e. on www.bankofbaroda.in. Bidder should refer the same before final submission of the proposal.

Last date for submission of the above tender will be on 28th September 2020 by 12:30 PM.

Place: Vadodara

Digital Banking & Payment Business

General Manager and Head

## **Vedanta moves SConreopening** of Sterlite plant

Chennai, 26 August

Mining major Vedanta has official said the shutting down moved the Supreme Court challenging the Madras High Court's (HC's) refusal to order reopening of Sterlite's copper smelting plant at Thoothukudi in Tamil Nadu.

On August 18, the Madras HC refused On August 18, to allow reopening the Madras HC of the plant and dis- refused to allow missed all the 10 reopening of petitions filed by the the plant and company. The plant dismissed all has remained closed the 10 petitions ever since the Tamil **filed by the** Pollution company Nadu Control Board

(TNPCB) on April 9, 2018, rejected renewal of consent to operate the plant. This was because the state government ordered the plant to close after 13 people were shot dead by the police on May 22, during a protest against the plant.

While the company said it was a knee-jerk reaction by the state administration, the state plant violated environment laws. The company also said it is incurring around ₹5 crore loss every day. Back-of-theenvelope calculation peg it at around ₹3,500-4,000 crore in he said.

https://emeetings.kfintech.com.

closed for about 800 days.

Meanwhile, a company of the smelter has led to the country spending \$2 billion on import. "The government per se had lost forex of \$2 billion, which was something like about ₹15,000 crore per year... So

say ₹35,000-40,000 crore in this twoand-a-half-vear period by way of imports of copper, which we would have otherproduced," Sterlite Copper Chief Executive Officer Kumar Pankai told PTI.

"Yes, the loss is tremendous. I mean, one is a monetary loss and the other loss is one that cannot be monetised. For example, the monetary loss for the company is one wherein we lost I would say something around ₹6,000 crore, maybe in the last two and a half years... Plus we used to spend about ₹600 crore in the government alleged that the vicinity of Thoothukudi... by way of salaries, in some input materials, etc. which has come to zero. So the people here (around 50,000) have suffered because of our closure,"

**JTEKT** 

JTEKT INDIA LIMITED

(CIN - L29113DL1984PLC018415)

Regd. Office: UGF-6, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi 110001. Tel.: 011-23311924, 23327205

E-mail: investorgrievance@jtekt.co.in; Website: www.jtekt.co.in

TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ('VC') /OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM') AND INFORMATION ON

E-VOTING

The AGM of the Members of JTEKT India Limited ('the Company') will be held on

Wednesday, the 23rd September, 2020 at 11.00 a.m. (IST) through VC/OAVM, in

compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules

made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020,

respectively, and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA')

and SEBI to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the AGM.

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at

The Notice of the AGM and Annual Report have been sent to all the Members whose

email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The

aforesaid documents are also be available on the Company's website i.e.

www.jtekt.co.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com

The Company is providing to the members, facility to exercise their right to vote on

resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ('remote e-voting').

The Company has engaged the services of KFin Technologies Pvt. Ltd. ('KFin') as

the authorized agency to provide remote e-voting facility. Members are requested to

The facility for voting through electronic means will also be made available at the

AGM ('Insta-Poll') and only those members, who are present in the AGM and have

not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not

Information and instructions including the details of user id and password relating to

e-voting have been sent to the members through email. The same logging

• Date and time of commencement of remote e-voting - 19th September, 2020

• Date and time of end of remote e-voting – 22nd September, 2020 (5.00 p.m.- IST)

The remote e-voting shall not be allowed beyond 22nd September, 2020

Aperson, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on

the cut-off date i.e. 16th September, 2020 shall only be entitled to avail the facility of

A person who becomes member of the Company after dispatch of the notice of the

meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the notice of AGM which

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may

Shareholders may contact KFin at the toll-free No. 1-800-3454-001 or write to them at

einward.ris@kfintech.com or visit the FAQs section available at KFin's website

https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx. Members may also contact Mr. Rajeev Kumar, Dy. Manager, KFin Technologies Private Limited, Selenium

Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032, Tel. No. 040-67161524 for any further clarifications.

10) In case of any query regarding e-voting or technical assistance for VC participation.

click on https://evoting.kfintech.com for casting the vote.

barred from doing so, will be eligible to vote during the AGM.

The details of the remote e-voting are as under:

(9.00 a.m.- IST)

Place : Gurugram

Date: 26.08.2020

credentials should be used for attending the AGM through VC/OAVM.

remote e-voting or participation at AGM and voting through Insta-Poll.

is available on Company's website and KFin's website.

attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

#### A Nippon india Mutual Fund Wealth sets you free

Nippon Life India Asset Management Limited

(formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited) (CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 022 6808 7000 • Fax No. +91 022 6808 7097 • www.nipponindiamf.com

Hosting of Annual Report and abridged summary thereof of Schemes of Nippon India **Mutual Fund** 

Unitholders of the schemes of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") are requested to note that pursuant to Regulation 56 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and circulars issued from time to time, the Annual report and abridged summary thereof of the schemes of NIMF for the period ended March 31, 2020, have been hosted on the website of NIMF i.e. www.nipponindiamf.com and Association of Mutual Funds in India i.e. www.amfiindia.com.

The request of physical copy or electronic copy of the Abridged summary of the Annual report can be made through below modes at free of cost:

SMS: Type AR <PAN Number> from your registered Mobile Number and send it to

For example: AR TMRWZ0951U

- Email: customercare@nipponindiamf.com
- Customer care no: 18602660111 (charges applicable)
- Investors can reach out to any of the branches of NIMF or written request letter can be sent at KFin Technologies Private Limited (Unit: Nippon India Mutual Fund) Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032, India.

For NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED

(formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited) (Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)

Mumbai August 26, 2020

**Authorised Signatory** 

© CENTUM

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

#### **CENTUM ELECTRONICS LIMITED**

CIN: L85110KA1993PLC013869

Regd Office: No. 44, KHB Industrial Area, Yelahanka New Town,

Bangalore-560 106 Tel: 080 - 4143 6000 Fax: 080 - 4143 6005 Email: investors@centumelectronics.com

Website: www.centumelectronics.com

### NOTICE OF THE 27<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF CENTUM ELECTRONICS LIMITED

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of Centum Electronics Limited (Company) will be Notice is releasely given that the 27 minute defined investing (AGN) of Centum Electronics Elimited Company, with the left on Friday, September 18, 2020 at 4.00 p.m. IST through Video Conferencing (VC) to transact the businesses as set out in the Notice of the 27th AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020, the Annual Report 2019-20, containing the Notice of the AGM is. peing dispatched through electronic mode by KFin Technologies Private Limited, Registrar and Share Transfer Agen (RTA) of the Company on August 26, 2020 to those Shareholders whose email addresses are registered with the Company or RTA and/or Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular.

The Notice of the 27th AGM and the Annual Report 2019-20 are also available on the website of the Company at https://www.centumelectronics.com, on the website of the RTA at https://evoting.karvy.com and on the website of the Stock Exchanges viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com

In accordance with the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Company has fixed Friday, September 4, 2020 as the Record Date for determining the Members eligible for Final Dividend on Equity Shares, if declared at the ensuing AGM of the Company for the financial year 2019-20. The Dividend, if declared at the AGM will be paid on or before October 15, 2020.

The Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote on the businesses as set forth in the Notice of the 27th AGM by electronic means through both remote e-voting and Insta Poll system at the AGM. All Members

- 1. Members may attend the 27th AGM through VC at <a href="https://emeetings.kfintech.com">https://emeetings.kfintech.com</a> by using their remote e-voting
- 2. The instructions for participating through VC and process of Insta Poll, including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through Insta Poll, are provided as part of the Notice of the 27" AGM.
- 3. Members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date being Friday, September 11, 2020, shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or vote, as the case may be, at the AGM.
- 4. Remote e-voting period commences on Tuesday, September 15, 2020 at 9.00 a.m. to Thursday, September 17, 2020 at 5.00 p.m. Remote e-voting shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. 5. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date for remote e-voting, or has registered the email address after dispatch of the Notice, such Member may
- obtain the User ID and password in the manner as provided in the procedure and instructions for e-voting 6. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC, but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC, shall be eligible to vote through Insta Poll system available during the AGM.
- 7. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same in respect of the shares held in electronic form with the Depositories through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's RTA KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot Nos.31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. 8. The Company has enabled a process for the limited purpose of receiving the Company's Annual Report 2019-20
- and Notice of the 27th AGM (including remote e-voting instructions) electronically, and Members may temporarily update their email address by accessing the link https://ris.kfintech.com/email\_registration/.
- 9. Members who may require any technical assistance or support before or during the AGM are requested to contact KFin Technologies Private Limited at toll free number 1-800-3454-001 or write to them at <a href="mailto:evoting@kfintech.com">evoting@kfintech.com</a>. Members may also contact Mr. Shivakumar at the RTA's address mentioned earlier or at shivakumar.n@kfintech.com or 040-6716 1653 for any further clarifications

For Centum Electronics Limited Nagaraj K V Company Secretary & Compliance Officer

### STAR PAPER MILLS LIMITED

Regd. Office: Duncan House, 2nd Floor, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata 700 001 CIN-L21011WB1936PLC008726 Ph: (033) 22427380-83 Fax: (033)22427383 email: star.sre@starpapers.com, web: www.starpapers.com

EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

(Rs	8.	in	Lakhs
ıartar			Voor

Sr No.	Particulars	Quarter ended 30th June 2020	Quarter ended 30th June 2019	Year ended 31st March 2020		
		Un-audited	Un-audited	Audited		
1	Total Income from Operations	2,632.63	8,914.51	34094.85		
2	Net Profit /( Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	28.04	1,419.50	4914.96		
3	Net Profit /( Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28.04	1,419.50	4914.96		
4	Net Profit /( Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	26.77	1,383.42	3726.76		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	23.85	1,124.31	3804.67		
6	Equity Share Capital	1,560.83	1,560.83	1560.83		
7	Other Equity	-	-	47268.64		
8	Earnings per Share (of Rs 10/-each) (in Rs.)					
	(1) Basic	0.17	8.86	23.88		
	(2) Diluted	0.17	8.86	23.88		
Not	Note:					

The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter ended 30th June, 2020 filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the stock exchange websites at http://www.nseindia.com and at http://www.bseindia.com and on the Company's website at http://www.starpapers.com.

For Star Paper Mills Ltd.

Place: New Delhi Date: 26th August. 2020

All the members are informed that:

M. Mishra **Managing Director** DIN: 00096112



#### LGB FORGE LIMITED

Read Office 6/16/13, Krishnaravapuram Road, Ganapathy Post, Coimbatore – 641 006 CIN: L27310TZ2006PLC012830

Website: www.lgbforge.com, Email: secretarial@lgbforge.com Tel: +91 0422 2535325

NOTICE OF 14<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

#### NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on

Thursday the 17th September 2020 at 03:30 PM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) n compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circulars Issued in April and May 2020 ("Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue to transact the businesses as set out in the Notice of AGM dated June 20, 2020.

In compliance with the circulars, the Notice of AGM and Annual Report have been sent to all the members whose e-mai IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company viz., www.lgbforge.com and also on the website of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (agency for providing the Remote e-Voting/e-Voting at the AGM) i.e. www.evotingindia.com. The Company has completed dispatch of notice of AGM and Annual Report through e-mails on Those members holding shares in physical form, whose e-mail addresses are not registered with the Company, may

register their e-mail address by sending scanned copy of a signed request letter mentioning their name, folio number complete address, email address to be registered, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN; and self-attested scanned copy of Driving Licence / Passport / Bank Statement / AADHAR supporting the registered address of the Member by e-mail to secretarial@lgbforge.com for obtaining copy of the Annual Report and Notice of AGM. Members holding shares in demat form can update their e-mail address with their

Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date (September 10, 2020) may cast their vote electronically on each items of the businesses as set forth in the Notice of 14th AGM through the electronic voting system on CDSL ('remote e-Voting') or e-Voting at the AGM.

- The ordinary and special businesses as set out in the Notice of AGM shall be transacted through remote e-Voting or e-Voting system at the AGM.
- The remote e-Voting shall commence at 9.00 AM (IST) on Monday, September 14, 2020 The remote e-Voting shall end at 5.00 PM (IST) on Wednesday, September 16, 2020
- Remote e-Voting shall not be allowed beyond 5.00 PM (IST) on Wednesday, September 16, 2020 The remote e-Voting module shall be disabled for voting after the date and time mentioned above. Once the vote on
- a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 10, 2020. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the
- Notice of AGM and holding shares as on cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request to agm@cameoindia.com or to Mr.R.Ravi, Company Secretary, LGB Forge Limited, 6/16/13, Krishnarayapuram Road, Ganapathy, Coimbatore 641006, email: secretarial@lgbforge.com. However, if the member is already registered with CDSL for e-voting then such member can use his / her existing User ID and password for casting his
- The facility for voting will also be made available during the AGM and the members attending the meeting through VC facility, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote through the e-voting system at the
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not
- 10. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the The Company has appointed Mr. P. Eswaramoorthy, Practicing Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize
- both the remote e-voting process and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner 12. In case of any queries, the member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-
- voting user manual for Members available at the downloads section of www.evotingindia.com or call on toll free no 1800-225-533. You may also send queries /grievances relating to remote e-voting to Mr.Rakesh Dalvi. Manager CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com / 1800225533 or Mr. R.Ravi, Company Secretary, LGB Force Limited email: secretarial@lgbforge.com .The Company had also published a communication on 24.08.2020 to facilitate updation of e-mail IDs by members who have not already registered the same.
- 13. Please keep your updated email ID registered with the Company / your Depository Participant to receive timely Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Friday, September 11, 2020 to Thursday,

September 17, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For LGB Forge Limited Company Secretary

Nitin Sharma Company Secretary

For JTEKT India Limited

August 26, 2020

Bengaluru















Coimbatore

26.08.2020







### एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN No. L40101HP1988GOI008409

नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन

#### प्रैस नोटिस

ई-निविदा संख्या पैकेज (पी)-237 (ओ एंड एम)

एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से एतद्द्वारा घरेलू प्रतिस्पर्धा बोली पर आधारित 'मिनी हाइड्रो पावर स्टेशन (200 KW) झाकड़ी में, हाइड्रो - मैकेनिकल और इलैक्ट्रो -मैकेनिकल उपकरण / मशीनरी की आयोजना, डिजाइन और इंजीनियरिंग, उपकरण और सामग्री की आपूर्ति सिविल निर्माण सभी आवश्यक अतिरिक्त जांच डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग के संबंध में ईपीसी **आधार पर कार्य** ' हेतु ऑनलाइन बोलियां (ई - निविदा) आमंत्रित की जाती हैं ।

विस्तृत विवरण के लिए वेबसाइट www.sjvn.nic.in https://sjvn.abcprocure.com और www.eprocure.gov.in पर जाए बोली दस्तावेजों को डाउनलोड करने की अतिंग तिथि: 13.10.2020 (12:00) बजे तक बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 14.10.2020 (13:00) बजे तक संशोधन, यदि कोई हो, तो केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर जारी किए जाएगें।

उप महाप्रबंधक पी. एंड सी विभाग, एनजेएचपीएस, एसजेवीएन लि., झाकड़ी, जिला शिमला (हि.प्र.)



टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर, पेनिनसूला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदम मॉर्ग, लॉअर परेल, मुबंई—400013 CIN No. U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

(प्राविभूत । इत अवतम नियम, 2002 क । न्यंम 8()) के साथ पाठत पारासे पिठ के अनुसार)
चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गंठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम,
2002 के अंतर्गंत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)
के अंतर्गंत प्रवत्त शिवतायों के अनुपालन में टाटा कैंपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत
अधिकारी मौजूदा अधोहरताक्षरी ने उक्त सूचना की तिथि से 80 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि को
मुगतान करने के लिए ऋणियों को बुलाने के लिए नीचे वर्णित तिथि पर मांग सूचना जारी की थी।
ऋणी राशि का मुगतान करने में असफल रहे, एतरद्वारा विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को
सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम
की धारा 13(4) के अंतर्गंत उन्हें प्रदत्त शवितयों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले
लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्वारा संपत्ति के साथ लेन-वेन न करने ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतदद्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने क्र चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन नीचे वर्णित तिथि से उस्प ब्याज व पैनल ब्याज, शुल्कों, लागतों आदि के सहित नीचे संदर्भित राशि हंतु टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगी। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

	ऋण खाता	देयता(ओं) / कानूनी वारिस(ओं) /	मांग सूचना	कब्जा	
	सं.	कानूनी प्रतिनिधि(ओं)	अनुसार राशि	सूचना	
	10676827,	जीआर्जे डिस्ट्रीब्यूट्स् एंड ड्वलपर्स् प्रा. लि.	रु. 9,35,31,032/-	22	
	9801150,	(ऋणी) व स्टार सिटा बिल्डहॉम प्राइवट लि.	व	अगस्त	
	9821972	और श्री अजय कुमार गुप्ता, श्री अंकित गुप्ता	₹. 26,35,47,010/-	2020	
		श्री आशीष गुप्ता, श्री अंजय सिंगल,	18 फरवरी, 2020		
		श्री संजय सिँगल (सह—ऋणी)	तक		
<b>प्रतिभवित संपत्ति /अचल संपत्ति का विवरण :</b> संपत्ति नं 1 प्रोजेक्ट भूमि पर निर्मित किए ज					

प्रतिभृतित संपत्ति / अचल संपत्ति का विवरण : संपत्ति नं. 1 प्रोजेक्ट भूमि पर निर्मित किए जाने वाला 'रीगल कोट' के रूप में ज्ञात आवासीय हाजसिंग प्रोजेक्ट पर पंजीकृत इविवटेबल गिरपी माप 37262.81 वर्ग मीटर खसरा नं. 146, 147, 83, 84, 92, 142, 85, 94, 136, 137, 140, 141, 333 / 96, 276 के सहित, गांव बंदीरपुर, तहसील—तिजारा, भिवाड़ी, राजस्थान, अत्वर, वाई पास रोड, भिवाड़ी प्रोजेक्ट भूमे पर निर्मित किए जाने वाला 'रीगल कोट' के रूप में ज्ञात आवासीय हाजसिंग प्रोजेक्ट पर पंजीकृत इविवटेबल गिरवी माप 37262.81 वर्ग मीटर खसरा नं. 146, 147, 83, 84, 92, 142, 85, 94, 136, 137, 140, 141, 333 / 96, 276 के सहित, गांव बंदीरपुर, तहसील—तिजारा, मिवाड़ी, राजस्थान, अत्वर, बाइं पास रोड, भिवाड़ी । संपत्ति के अधिक विवरण के लिए देखें : https://bit.ly/2KytmTM https://bit.ly/2KytmTM हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी पास राड, 1भवाड़ा । संपात्त **दिनांक : 27.08.2020 स्थान : दिल्ली** टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

#### डीएसई एस्टेट्स लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड) CIN: U91120DL1947PLC001239

डीएसई हाउस, 3/1, असफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002, ईमेल:secretarial@dseindia.org.ir सूचनाः कृपया डीएसई एस्टेट्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ विषयः ई-मेल का पता पंजीकृत/अद्यतन कराने हेतु

सदस्यगण कपया ध्यान दें कि सरकार की हरियाली की पहल को बढ़ावा देने तथा कंपनी के सदस्यों वे हित में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य संचार, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए सदस्यों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को सक्षम बनाने के लिए कंपनी अपने सदस्यों से ईमेल का पता का ब्यौरा पंजीकृत कराने का अनुरोध करती है।

सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि कोविड-19 महामारी की जारी परिस्थिति को देखते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अपने सर्कुलर दिनांकित 5 मई, 2020 के अनुसार कंपनियों को अपने सदस्यों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को जिनके ईमेल का पता कंपनी/कंपनी के आरटीए अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों (डीपी) के पास पंजीकृत है, सिर्फ वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन के साथ एजीएम की सूचना भेजने की अनुमति प्रदान की है।

कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल का पता उपलब्ध नहीं कराया है वे एजीएम की यन्नन तथा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि, नियंत समय के अंदर उसे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

सदस्याण कपरा ध्यान हैं कि कंपनी निर्धारित समय के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निराद समय में तारीख, समय एवं स्थान/प्रारूप के साथ 72वीं वार्षिक साधारण बैठक के आयोजन संबंधी एक और विज्ञापन का प्रकाशन करेगी। सदस्यों से अभिपा कैपिटल लिमिटेड कंपनी के पंजीयक तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा जनके डीपी

के पास ईमेल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। इसके पंजीयन की पद्धति नीचे उल्लेखित है: कंपनी के आरटीए यानि अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, ए 387, दिलखुश इंडस्ट्रियल एरिया

जी.टी. करनाल रोड, आजादपुर, दिल्ली-110033, ईमेलः rta@abhipra.com के में धारण पास यथावत रूप से हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें एवं ईमेल के पंजीयन के लिए नीचे उल्लेखित दस्तावेज/विवरण प्रदान करें रहने पर क) हस्ताक्षर के साथ अनुरोध पत्र

ख) शेयरधारक का नाम ग) फोलियो नं घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वयं सत्यापित) ड़) शेयर सर्टिफिकेट (सामने एवं पीछे) की प्रतिलिपि

डिमैट प्रारूप कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से सम्पर्क करें एवं आपके डीपी द्वारा दी गई सलाह पर संबंधित प्रक्रिया के अनुसार अपने डिमैट खाते में अपना ईमेल पता का पंजीयन रहने पर कराएं

ऊपर उल्लेखित मामले में और अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण हेत् सदस्यगण कपंनी/कंपनी के आरटीए वे पास ऊपर उल्लेखित पते/ईमेल पर लिख सकते हैं।

कते डीएसई एस्टेटस लिमिटेड

(वी. के. यादव)

स्थान : दिल्ली दिनांक : 26 .08 .2020

## HI-TOCH

#### हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 505, पर्ल्स ओमेक्स टॉवर, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपरा. नई दिल्ली 110034 CIN: L27202DL1985PLC019750 www.hitechpipes.in, info@hitechpipes.in; 011-48440050

कपनी के सदस्यों के लिए सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 एवं अन्य लागू परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए उपरोक्त कथित एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार एजीएम की सचना और वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास . पंजीकृत हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग में भागीदारी के तरीके को 36वी एजीएम की सचना मे प्रदान किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hitechpipes.in पर भी उपलब्ध होगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सदस्यगण जिनके ई-मेल पते सभी पत्राचार या बैंक खाते में सीधे लामांश राशि की प्राप्ति के लिए बैंक खाता विवरण डिपॉजिटरी प्रतिभागी/आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं, से एतद्द्वारा अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आईडी एवं बैंक खाता विवरण अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (इलेक्टॉनिक प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यगण) या कंपनी के आरटीए मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि. (भौतिक प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यगण) निम्नलिखित

निर्देशों का पालन करते हुए पंजीकृत कराएं। कंपनी के आरटीए मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि. को उनके ई—मेल पते bssdelhi@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजें जिसमें (वार्षिक रिपोर्ट डिस्पैच के लिए विषय लाइन-ई-मेल पंजीकरण के साथ) वर्णित करें:

- क) ई-मेल पता पंजीकरण के लिए फोलियो / डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी
  - शेयरधारक का नाम
  - पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
- ख) बैंक खाता विवरण पंजीकरण के लिए बैंक एवं शाखा का नाम
- बैंक खाता प्रकार बैंक खाता संख्या

तिथिः 26 अगस्त, 2020

एमआईसीआर/आईएफएससी कोड उपरोक्त के समर्थन में कैंसल किये गये चैक की स्कैन कॉपी

बोर्ड के आदेश र कृते हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड हस्ताः 🗸 स्थानः नई दिल्ली अरूण कुमार

फोनिक्स इनोवेसन एलएलपी ई-मेल : innovation.phoenix @gmail.com

कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं कम्पनीज (रजिस्टर के लिए अधिकृत नियमन, 2014) अधिनियम के चैप्टर XXI के पार्ट 1 की (धारा 374 (बी) के अनुसरण) में पंजीकरण के लिए विज्ञापन सूचना देने के बारे में

- ... कम्पनीज अधिनियम, की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में एतद्द्वार सूचना प्रदान की जाती है कि एक आवेदन अब से पंद्रह दिनों के बाद लेकिन तीस दिनों के समाप्ति से पहले इसके बाद कि फोनिक्स इनोवेसन एलएलपी को कम्पनी अधि ानियम. 2013 के चैप्टर XXI के पार्ट 1 अन्तर्गत प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी शेयर्स द्वारा
- - ऑन्कोलॉजिकल उपचार सहित चिकित्सीय सेवाओं के सम्बन्धित उपचारों सहित रोगियों के लिए डे केयर की स्थापना एवं रखरखाव एवं सम्बन्धित सेवाओं के लिए संचालन करना।
  - 2. हेल्थकेयर/चिकित्सीय सेन्टर की स्थापना, संचालन एवं ऑन्कोलॉजिकल सहित चिकित्सीय उपचार प्रदान करना।
- प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मैमोरनडम एण्ड आर्टीकल्स ऑफ एसोसियेसन की एक प्रति का कार्यालय ए 22, हौज खास नई दिल्ली - 110016 में कार्यदिवसों के दौरान प्रात 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निरीक्षण किया जा सकता है।
- आपति पर उनके आपति को लिखित में रजिस्ट्रार को सेन्ट्रल रजिस्ट्रेसन सेन्टर (सीआरसी), इण्डियन इन्सिट्यट ऑफ कारपोरेट कार्य (आईआईसीए), प्लॉट न० 6, 7, 8, सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर जिला गुड़गाँव (हरियाणा) को इस सूचना प्रकाशन के इक्कीस दिनों के भीतर भेजे साथ में एक प्रति कम्पनी के पंजीकत कार्यालय ए 22 हौज खास. नई दिल्ली - 110016 को भी प्रषित करे।

दिनांक 25 अगस्त. 2020

अपनी प्रति के लिए

Call **022 4027 5432** or SMS reachbs to 57575 or

प्रपत्र ए सार्वजनिक घोषणा यन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवालिया समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अधीन)

मैसर्स डायोन ग्लोबल सलूशन्स लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेतु प्रासंगिक विवरण मैसर्स डायोन ग्लोबल सलूशन्स लिमिटेड निगमित कर्जदार का नाम निगमित कर्जदार के गठन की तिथि प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कंपनियों के पंजीयक-दिल्ली कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है गमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी 74899DL1994PLC058032 सं./लिमिटेड लॉयब्लिटी आईडेंटिफिकेशन 409. चौधरी कॉमप्लेक्स. 9 वीएस ब्लॉक, मधुबन रोड, निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता शकारपुर, ईस्ट दिल्ली-110092 निगमित कर्जदार के संबंध में दिवालिया 18/08/2020 (आईआरपी को ईमेल के जरिए दिनांक 24 08 2020 को आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई) आरम्भ होने की तारीख देवालिया समाधान की प्रक्रिया बंद 14.02.2021 (सीआईआरपी के प्रारम्भ होने की तारीख करने की अनुमानित तारीख से 180 दिन) प्रदीप कुमार लखानी रेम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00541 दिवालिया पेशेवर का नाम एवं पंजीयन सं 2017-18/10966 बोर्ड के साथ यथा पंजीकत अंतरिम 879 सेक्टर-40 कम्यनिटी सेंटर के निकट गडगाँव

**ईमेलः** pradeep.lakhani1967@gmail.com 405, न्यू दिल्ली हाऊस, 27 बाराखम्बा रोड, कर्नाट प्लेस नई दिल्ली-110001। अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेत प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल ईमेलः cirpdgsl@gmail.com 07.09.2020 (आईआरपी को आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 24.08.2020 को उपलब्ध कराई गई, इसलिए दिनांक 11 दावा जमा करने अंतिम तिथि 24 08 2020 से 14 दिन) 12 धारा 21 की उप-धारा (6ए) के अनच्छेद (बी) आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनसा के अधीन अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा तय नागू नहीं ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई है 13 एक श्रेणी के ऋणदाताओं के अधिकृत आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसा प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने हेतु लागु नहीं न्चिन्डित दिवालिया पेशेवरों के नाम

ख) लागू नहीं पतद्वारा सूचया दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यासाधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने दिनांक 18.08.2020 को मैसर्स डायोन ग्लोबल सलूशन्स लिमिटेड के निगमित दिवालिया समाधान की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है (आईआरपी को आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 24.08.2020)।

पर उपलब्ध है

क) प्रासंगिक प्रपत्र https://lbbi.gov.in/home/downloads

(प्रत्येक श्रेणी हेतु तीन नाम)

(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण

14 (क) प्रासंगिक प्रपत्र तथा

**मैसर्स डायोन ग्लोबल सलूशन्स लिमिटेड** के ऋणदाताओं को एतद्द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर के पास प्रविष्टि सं. 10 में उल्लिखित पते पर दिनांक **07.09.2020** को अथवा उससे पहले अपने साक्ष्य के साथ अपने दावे जमा करने को कहा जाता है।

विनीय ऋगादावाओं को साध्य के साथ अपने हाते सिर्फ इलेक्टॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन सभी ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं। दावों के गलत रहने पर अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रदीप कुमार लखानी तारीख : 27.08.2020 **मैसर्स डायोन ग्लोबल सलूशन्स लिमिटेड** के लिए अंतरिम सम आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00541/2017-18/10966

#### **JT**EKT

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

(CIN - L29113DL1984PLC018415) पंजी. कार्यालय : यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली -110001.

फोन नंबर : 011-23311924, 23327205 ई-मेल: investorgrievance@jtekt.co.in; वेबसाइट: www.jtekt.co.in

#### वीडियो कांफ्रेस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स 'ओएवीएम') के माध्यम से 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक('एजीएम') के आयोजन की सूचना तथा ई-वोटिंग के संबंध में जानकारी जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की एजीएम, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध

व्यवसायों के निष्पादन हेतु, बुधवार 23 सितंबर 2020 को पूर्वा. 11.00 बजे (आईर्सटी) कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम') के लागू प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत विरचित नियमावली और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ('सूचीकरण विनियमावली') के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी जनरल सर्कलर नंबर 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमानसार दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 एवं 5 मई 2020 तथा कार्पोरेट मंत्रालय ('एमसीए') एवं सेबी द्वारा जारी अन्य सर्कुलर्स के अनुपालन में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी हैं जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैट(पार्टिसिपैट्स) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.llekt.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंजेज

की वेबसाइट नामतःwww.bseindia.com औरwww.nseinda.com पर भी उपलब्ध हैं। कम्पनी सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा ('रिमोट सेवाएं अनुबंधित की हैं। सदस्यों से वोट डालने के लिए https://evoting.kfintech.com पर क्लिक करने का अनुरोध किया जाता है।

एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा ('इंस्टा-पोल') भी उपलब्ध होगी तथा केवल वे सदस्य एजीएम के दौरान वोट डालने के लिए ग्राह्य होंगे, जो एजीएम में उपस्थित हैं तथा जिनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर वोट नहीं डाला गया है और किसी अन्य प्रकार से ऐसा करने हेतु प्रतिबंधित नहीं हैं।

सूचना और अनुदेश जिनमें ई-वोटिंग के संबंध में यूजर आईडी तथा पासवर्ड का विवरण शामिल है, सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजे जा चुके हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए इन्हीं लॉगिंग क्रेडेन्शियल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। रिमोट ई-वोटिंग का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

• रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि और समय - 19 सितम्बर, 2020 (पूर्वा. 9.00 बजे-

• रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय – 22 सितम्बर, 2020 (अप. 5.00 बजे–

22 सितम्बर, 2020 (अप. 5.00 बजे-आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं

कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों की पंजिका/लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में कट-ऑफ तिथि अर्थात 16 सितम्बर 2020 को मौजद होगा केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सविधा पाप्त करने अथवा एजीएम में भाग लेने तथा इंस्टा-पोल के माध्यम से वोट डालने का हकदार होगा।

कोई व्यक्ति, जो बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, वह कम्पनी की वेबसाइट तथा केफिन की वेबसाइट पर उपलब्ध एजीएम की सचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया अपना कर यजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

सदस्यगण, जो बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चके हैं. एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

10) सदस्यगण, ई–वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में अथवा वीसी प्रतिभागिता के लिए किसी तकनीकी सहायता के लिए, केफिन से टोल-फ्री नबर 1-800-3454-001 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उनको einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं अथवा केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx. पर उपलब्ध एफएक्य'ज सेक्शन देख सकते हैं।सदस्यगण किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए श्री राजीव कुमार, उप प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नंबर 31 एवं 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032 से भी फोन नंबर 040-67161524 पर सम्पर्क कर सकते हैं। वास्ते जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

स्थान : गुरूग्राम तिथि : 26.08.2020 नितिन शर्मा कम्पनी सेक्रेटरी

## टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड (CIN: L33301DL1988PLC033434)

पंजीकृत कार्यालयः ई-10, लोअर ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024 दूरभाषः 011-41021297, वेबसाइट : www.timexindia.com, ईमेल : investor.relations@timex.com 32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों को भेजी गई सुचना दिनांकित 24 जुन, 2020 में किए गए उल्लेख के अनुसार व्यवसायिक पहुलओं पर चर्चा करने के लिए वीडियो काँफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओवीएएम) के माध्यम से कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 को अपराहन 3.30 बजे आयोजित होगी। कॉरपोरेट कार्य विषयक मंत्रालय द्वारा जारी साधारण सर्कुलर दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 ("एमसीए सर्कुलर") तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी तथा साधारण सर्कुलर दैनांक 12 मई, 2020 ("सेबी सर्कुलर") के अनुसार कंपनी ने वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 के साथ 32वीं एजीएम की सुचना सोमवार, 24 अगस्त, 2020 को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन समी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी अथवा पंजीयक एवं अंतर एजेंट तथा डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। एमसीए सर्कुलरों तथा सेबी सर्कुलर के तहत वार्षिक प्रतिवेदन तथा एजीए की सूचना की भौतिक प्रतिलिपि भेजने की जरूरत को भी सम्पन्न कर लिया गया है। कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट यानि www.timexindia.com एवं बीएसई लिमिटेड की वेबासाइट यानि

www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित उसके अधीन गठित नियमों, सेबी विनिमयनों तथा सचिविक मानकों के अनुपालन के तहत एजीएम

निर्धारित किए जाने वाले व्यवसायिक पहलुओं के संबंध में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले तथा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी सभी सदस्यों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटिज डिपॉजिटरिज लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है ई-वोटिंग के दिशा निर्देश एजीएम की सूचना में उल्लेखित है। सदस्यों को सूचित किया जाता है किः क. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 15 सितम्बर, 2020 (सुबह 9.00 बजे) शुरू होगी तथा 17 सितम्बर, 2020 (अपराहन 5.00 बजे भमास) समाप्त होगी। ऊपरोत्त तारीख एवं समय के उपरांत एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग प्रारूप निशक्त कर दी जाएगी।

ताराख एवं तमन के उपरात एप्तिकारल द्वारा चाटन के लिए इन्जाटन प्रारूप निशाक कर दा जाएना सदस्यों के लिए बोट डालने का अधिकार शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 (अंतिम तारीख) को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके समानुपात के अनुसा होगा। अंतिम तारीख को सदस्यों के रजिस्टर/लाभमोगी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं सिर्फ वे ही एजीएम से पहले अथवा दौरान रिमोः

ई-वोटिंग की सविधा का लाभ पाने के पात्र होंगे। कोई भी व्यक्ति जिन्होंने सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है अथवा सदस्य बने हैं एवं अंतिम तारीख तक शेयर धारण रखते हैं,

www.evoting.nsdl.com पर ईमेल भेज कर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत हैं. तो वे वोट डालने के लिए अपने मौजदा यजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा बैठक के दौरान भी उपलब्ध रहेगी तथा जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट नहीं डाले हैं, वे बैठक के दौरान

जिन सदस्यों ने अब तक कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ अपने ईमेल का पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एजीएम की सुचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग के लिए लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड हासिल करने हेतु अपने ईमेल का पता पंजीकृत कराने के लिए नीचे उल्लेखित प्रक्रिया का

अनुसरण करने का अनुरोध किया जाता है: भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले शेयरधारकों के लिए - कंपनी के पास investor.relations@timex.com पर ईमेल के जरिए फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की हुई प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की

स्वयं सत्यापित स्कैन की हुई प्रतिलिपि) प्रदत्त करना होगा। डिमैट प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले शेयरधारकों के लिए - कंपनी के पास investor.relations@timex.com पर ईमेल के जरिए डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों वाली डीपीआईडी+सीएलआईडी अथवा 16 अंकों वाली बेनिफिशियरी आईडी), नाम, क्लाइट मॉस्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की हुई प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की हुई प्रतिलिपि) प्रदत्त करना होगा।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे एजीएम की सूचना में यथा उल्लेखित investor.relations@timex.com पर ईमेल के जरिए अपना नाम, डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी/फोलियो नम्बर, पैन, मोबाइल नम्बर का उल्लेख कर अपने पंजीकृत ईमेल पते से अनुरोध भेज कर वक्ता के रूप में स्वयं का पंजीयन करा सकते हैं। एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की सुविधा सिर्फ उन सदस्यों को प्रदान की जाएगी जो वक्ता के रूप में स्वयं को पहले से पंजीकृत करा चुके हैं। कंपनी के पास एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार

एतदृद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि 18 सितम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली 32वीं एजीएम के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासनिक) नियम 2014 के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 से बृहस्पतिवार 17 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

आपके पास अगर कोई प्रश्न है, तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड़स सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल तथा फ्रिक्वेंटली ऑस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) देख सकते हैं अथवा एनएसडीएस से निम्नलिखित टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा evoting nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी माहत्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से ईमेल आईडी pallavid@nsdl.co.in पर अथवा दूरभाषः +91 22 24994454 अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से ईमेल आईडी SoniS@nsdl.co.in पर दरभाष: +91 22 24994559 सम्पर्क कर सकते हैं।

> कृते टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड धीरज कमार मर

तारीख : 26 अगस्त 2020

स्थान : नोएडा

महाप्रबंधक-विधिक, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव



#### **Ansal Housing Limited** — An ISO 9001:2015 Company—

(Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.)

प्रधान कार्यालय २एफ-एएचसीएल, दूसरा तल, अंसल प्लाजा, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.-201010 ई–मेल : ahl@ansals.com वेबसाइट : www.ansals.com सीआईएन : L45201DL1983PLC016821

पंजीकृत कार्यालय 606, 6वां तल, इंद्र प्रकाश, 21 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडलोन / समग्र अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

							(	(रु. लाख में) ईपीएस छोडकर		
	विवरण	स्टैंडलोन				समग्र				
क्र		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
सं	13331	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1,881.35	4,359.03	5,572.32	17,170.72	2,494.27	5,333.92	6,627.73	22,121.45	
2	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ(+)/(हानि(-) (असामान्य/असाधारण मदों से पूर्व)	(603.73)	(4,749.53)	(860.14)	(7,823.94)	(540.94)	(4,556.90)	(768.35)	(7,475.03)	
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाम(+) / (हानि(–) (असामान्य / असाधारण मदों के बाद)	(603.73)	(4,749.53)	(860.14)	(7,823.94)	(540.94)	(4,556.90)	(768.35)	(7,475.03)	
4	कर के बाद अविध के लिए शुद्ध लाम(+) / (हानि(-) (असामान्य / असाधारण मदों के बाद)	(461.46)	(3,422.53)	(588.19)	(5,980.98)	(416.26)	(3,309.79)	(515.52)	(5,790.19)	
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि के लिए शामिल लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य समग्र आय (कर के बाद))	462.79	3,440.42	553.51	5,986.31	417.59	3,316.18	480.84	5,784.03	
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10 / — प्रत्येक का अंकित मूल्य)	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	5,938.58	
	अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) (जारी व बंद प्रचालनों के लिए) बेसिक व डायलूटिड ईपीएस (रु. में)	(0.78)	(5.76)	(0.99)	(10.07)	(0.70)	(5.57)	(0.87)	(9.75)	
नोट	•									

1. वित्तीय परिणाम कंपनीज (भारतीय लेखा मानकों) नियमावली, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा और कंपनीज (भारतीय लेखा मानकों) (संशोधन नियमों), 2016 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार भारतीय लेखा मानेकों के अनुपालन में हैं। 2. उन्ते सेबी (सूचीबृद्ध और अन्य प्रकटीकरूण आवश्यकृताएं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज़ के साथ दायर 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत

प्रारूप का सार है। 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए अनंकक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com व www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट बोर्ड के लिए और उन्हीं की ओर से हस्ता./— (कुशाग्र असंल) पूर्णकालिक निदेशक व सीईओ

डीआईएन : 01216563

3. उक्त परिणामों की अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 26 अगस्त, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं । स्थान : वैशाली, गाजियाबाद

दिनांक : 26 अगस्त, 2020

www.ansal.com पर भी उपलब्ध है।

हर भाव के

दिनांकः 24.08.2020, स्थानः नई दिल्ली

अन्य प्रकाशनों के मुकाबले सबसे ज्यादा, यानी साढे पांच पन्ने -मंगलवार से शनिवार - जो दे शेयर, म्यूच्युअल फंड और जिंस के भाव के नाथ कल के भाव और हाज़िर भाव भी

अपनी प्रति के लिए Call 022 4027 5432 or SMS reachbs to 57575

कंपनी संचिव

फार्म संख्या युआरसी-2

सीमित को पंजीकृत कराना प्रस्तावित है।

कम्पनी के प्रधान उदेश्य निम्न प्रकार हैं:

एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को इस आवेदन पर कोई

कृते फोनिक्स इनोवेसन एलएलपी

आदित्य तलवा अमीश डविजेन्द्रा वोर नामित पार्टनर/अधिकृत हस्ताक्षरी

email us at order@bsmail.in

बिज़नेस स्टैंडर्ड बेहतर बिजनेस वो. जो आपकी भाषा में हो

केनबैंक फैक्टर्स लि. (केनरा बैक की सहायक) पंजीकृत कार्यालय : 67/1, कनकपुरा मेन रोड, बासावानागुडी, बँगलोर-560004 शाखा कार्यालय : ने 1 पहली मंजिल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के पास नेहरू प्लेस नई दिल्ली—110019

फोन : 011–26287129 ∕ 40113698, CIN No. U85110KA1991PLC011960 ई–मेल– canfact.del@canbankfactors.com वेबसाइट :www.canbankfactors.c बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(६) व (९) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलॉमी बिक्री सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(ओं) व गारटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूतित ऋणदाता को गिरवी / प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिस पर केनबैंक फैक्टर्स लि., नई दिल्ली के प्राधिकत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जे में ली गई थी को केनबैंक फैक्टर्स लि., नई दिल्ली शाखा को देय रु. 9,68,26,915.99/- (रुपए नौ करोड़ अड़सेट लाख छब्बीस हजार नौ सौ पद्रह व पैसे निन्यानवे केवल) की वसूली के लिए 05.10.2020 को "जहां से जैसी है", जो है जैसी है" के आधार पर

ऋणियों के नाम व पता :

मैसर्स भारत लॉजीट्रांस प्रा. लि. 23, पहली मंजिल, सीरी फोर्ट रोड, नुई दिल्ली—110049, यह भी : 408, डीएलएफ कुतुब प्लाजा, डीएलएफ सिटी, फेज-, गुड़गांव—122002, और यह भी नं. 18, एमयूएल के सामने, गेट नं. 2, पालम गुँडुँगाव रोड, गुडगाव-122015 रोहित खैतान, पुत्र स्वर्गीय श्री हर गोविंद खैतान, डी–74, ओकवुड एस्टेट अपार्टमेंट्स, अक्षनीम मार्ग, डीएलएफ, फेज– II, गुड़गांव–122002, यह भी ए–64, ओकवुड एस्टेट अपार्टमेंट्स, अक्षनीम मार्ग, डीएलएफ, फेज– II, गुड़गांव–122002, यह भी : निवासी : ई 4 / 1, सेक्टर 26ए, डीएलएफ फेज– I, गुड़गांव, हरियाणा–122002

सावित्री देवी खैतान, पत्नी स्वर्गीय श्री हर गोविंद खैतान, डी-74, ओकवुड एस्टेट अपार्टमेंट्स, अक्षनीम मार्ग डीएलएफ, फेज-11, गुङ्गांव-122002, यह भी ए-64, ओकवुड एस्टेट अपार्टमेंट्स, अक्षनीम मार्ग, डीएलएफ फेज-11, गुङ्गांव-122002, यह भी : निवासी : ई 4/1, सेक्टर 26ए, डीएलएफ फेज-1, गुङ्गांव लार्याना <u>। 1220ला</u> अभित्ती मधुलिका वैश्य (कानूनी प्रतिनिधि) पत्नी श्री कपिल वैश्व, पुत्री स्वर्गीय हर गोविंद खैतान निवासी 25, हनुमान रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001

राष्ठ, कनाट प्लस्, नड्ड विल्ला–110001 5. सुश्री सुधा खेतान (कानूनी प्रतिनिधि) पुत्री स्वर्गीय हर गोविंद खेतान, गुलाब गज, खेतान लेन, वेस्ट ऑफ बोरिंग केनल रोड, पी.एस. कृष्णापुरी, पटना, बिहार–800001 6. श्रीमती नीरज कासीवाल (कानूनी प्रतिनिधि) पत्नी श्री हिमाशु कासीवाल, पुत्री स्वर्गीय हर गोविंद खेतान, निवासी एसबी–14, भवानी सिंह मार्ग, बापा नगर, जयपुर राजस्थान–302015

### श्रीमती मधुश्री मोदी (कानूनी प्रतिनिधि) पत्नी श्री ऋषि मोदी पुत्री स्वर्गीय हर गोविंद खेतान, निवासी मोदी प्लाजा ओल्ड अनाज मंडी, नवहा गेट, पटियाला, पंजाब—147001

रोहित खैतान, पुत्र स्वर्गीय श्री हर गोविंद खैतान, डी–74, ओकवुड एस्टेट अपार्टमेंट्स, अक्षनीम मार्ग, डीएलएप फेज–11, गुडगाव–122002, यह भी ए–64, ओकवुड एस्टेट अपार्टमेंट्स, अक्षनीम मार्ग, डीएलएफ, फेज–1 गुड़गांव–122002, यह भी : निवासी : ई 4 / 1, सेक्टर 26ए, डीएलएफ फेज–1, गुड़गांव, हरियाणा–122002

2. सावित्री देवी खैतान, पत्नी स्वर्गीय श्री हर गोविंद खैतान, डी–74, ओकवुड एस्टेट अपार्टमेंट्स, अक्षनीम मार्ग, डीएलएफ, फेज–11, गुड़गांव—122002, यह भी ए–64, ओकवुड एस्टेट अपार्टमेंट्स, अक्षनीम मार्ग, डीएलएफ, फेज–11, गुड़गांव—122002, यह भी : निवासी : ई 4 ⁄ 1, सेक्टर 26ए, डीएलएफ फेज–1, गुड़गांव, हरियाणा—122002

 श्रीमती मधुलिका वैश्य (कानूनी प्रतिनिधि) पत्नी श्री कपिल वैश्व, पुत्री स्वर्गीय हर गोविंद खैतान निवासी 25, हनुमान रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली–110001 सुश्री सुधा खैतान (कानूनी प्रतिनिधि) पुत्री स्वर्गीय हर गोविंद खैतान, गुलाब गंज, खैतान लेन, वेस्ट ऑफ बोरिंग केनल रोड, पी.एस. कृष्णापुरी, पटना, बिहार–800001

श्रीमती नीरज कासीवाल (कानूनी प्रतिनिधि) पत्नी श्री हिमांशु कासीवाल, पुत्री स्वर्गीय हर गोविंद खैतान, निवासी एसबी—14, भवानी सिंह मार्ग, बापा नगर, जयपुर राजस्थान—302015 श्रीमती मधुश्री मोदी (कानूनी प्रतिनिधि) पत्नी श्री ऋषि मोदी पुत्री स्वर्गीय हर गोविंद खैतान, निवासी मोदी प्लाजा ओल्ड अनाज मंडी, नवहां गेट, पटियाला, पंजाब–147001 आरक्षित मूल्य **रु. 3,20,00,000/—** (रुपए तीन करोड़ बीस लाख केवल) होगा और जमा धरोहर राशि रु 32,00,000/— (रुपए बत्तीस लाख केवल) 30.09.2020 को शाम 5.30 बजे तक या पहले जमा किए जाने

**ई--नीलामी की तिथि व समय** : 05.10.2020 को सुबह 11 से दोपहर 1.00 तक संपत्ति का पूर्ण विवरण : पट्टा नं. 454, लोसल टाउन, वार्ड नं. 14, दंतारामगढ़ तहसील, जिला—सीकर, राजस्थान, सीमाएं : उत्तर में : सुड़क, पूर्व में : सड़क, दक्षिण में : सड़क, पश्चिम में : सत्य नारायण खैतान की भूमि, भूमि माप 11,241.26 वर्ग

बिक्री की विस्तृत नियम व शतों के लिए, कृपया सेवा प्रदाता अर्थात् ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लि. की वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net, प्रतिभृतित् ऋणदाता मैससं केनबैंक फेक्टसं लि. वेबसाइट www.canbankfactors.com में दिए लिंक का संदर्भ लें, या आप कैन बैंक फेक्टसं लि. (केनरा बैंक की सहायक) नई दिल्ली शाखा नं. 1 डीडीए बिल्डिंग पहली मंजिल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय घंटों के दौरान संपर्क कर सकते हैं। (फोन नं. 011—26287129 ∕ 40113698 ∕ 9953220910) ई—मेल :canfact.del@canbankfactors.com प्राधिकृत अधिकारी, केनबँक फैक्टर्स लि. (केनरा बँक की सहायक) नई दिल्ली शाखा